



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 14—नवम्बर 20, 2009 (कार्तिक 23, 1931)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 14—NOVEMBER 20, 2009 (KARTIKA 23, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 29 अक्टूबर 2009

सं. ए-22012/1/2009-पीएमए-राष्ट्रपति, श्री एम.एस.एस. नायर (सीएसएल संख्या 4410), जो वर्तमान में प्रधान मंत्री कार्यालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 01.07.2003 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I में नियुक्त करती हैं।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2009

सं. आरएस/36(i)/2007/88-कार्मिक-राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा के महासचिव के रूप में डॉ. विवेक कुमार अग्निहोत्री, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) के कार्यकाल को वर्तमान निबंधनों और शर्तों पर 29 अक्टूबर, 2009 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

डी. बी. सिंह, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अक्टूबर 2009

सं. आरएस/6/4/2009/89-कार्मिक--श्री शिव कुमार सिंह को 24 सितम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए राज्य सभा सचिवालय में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री शिव कुमार सिंह की नियुक्ति सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

संदीप मिश्रा, अधिशासी अधिकारी

दिनांक 28 अक्टूबर 2009

सं. आरएस-3/7(1)/2009/90-कार्मिक--निम्नलिखित अनुवादकों जिन्हें पहले क्रमशः अधिसूचना सं. आरएस. 3/7(1)/2009/19-कार्मिक

दिनांक 5 मई, 2009 और अधिसूचना सं. आरएस. 3/7(1)/2009/35-कार्मिक दिनांक 01 जुलाई, 2009 के द्वारा तदर्थ आधार पर संपादक के रूप में स्थापनापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 27 अक्टूबर, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है :--

(i) श्री विपिन कुमार

(ii) श्री राजेश वर्मा

संदीप मिश्रा, अधिशासी अधिकारी

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2009

सं. फा. 3 (12)/2009-प्रशासन--इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.08.2009 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति श्री जैड. ए. नकवी को दिनांक 28.05.2009 से रु. 37,400--67,000/- के वेतन बैंड-4 + रु. 8,700/- के ग्रेड वेतन में संसदीय कार्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

2. उनको मंत्री की इच्छा से और उनके कार्यकाल तक या जब तक वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं कर देते तब तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

रेवा रानी, उप सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2009

सं. ए-12026/8/2005-प्रशा.-I (वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में अपर विधायी परामर्शी (हिन्दी) के पद पर कार्यरत श्री प्रकाश चन्द को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के उक्त खंड में रुपए 37,400--67,000/- के वेतन बैंड + रुपए 10,000/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (हिन्दी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. आर. बीर, उप सचिव

सं. ए-38020/2/2006-प्रशा.-I (वि.वि.)--विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में अधीक्षक (तकनीकी) श्री आर. के. गौतम अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अक्टूबर, 2009 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

एम. आर. बीर, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

सं. ए-38012/05/2009-प्रशा.-IV (वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री बी. रवीन्द्रन, अवर सचिव, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

सं. के-13027/6/2008-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री महिन्द्र सिंह सूलतलर, (2) श्री राम चन्द्र गुप्ता और (3) श्री गुरदेव सिंह को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अक्टूबर 2009

सं. आई-18011/19/2009-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री विष्मी सचदेवा, आई.पी.एस. (उत्तराखण्ड : 2003) को दिनांक 01.09.2005 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

सं. आई-18011/6/2005-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आई.पी.एस. अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती है :--

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन आई.पी.एस. अधिकारियों के नाम	आई.पी.एस. में नियुक्ति की तारीख	सामान्य तौर पर परिवीक्षा अवधि के पूरी होने की तारीख	स्थायीकरण की नियत तारीख
1.	श्री विवेकानन्द (आरआर : 96)	07.09.97 (अपराह्न)	07.09.99	08.09.99
2.	श्री दिपांशु काब्रा (आरआर : 97)	25.08.97 (पूर्वाह्न)	24.08.99	25.08.99
3.	श्री अमित कुमार (आरआर : 98)	28.12.98 (पूर्वाह्न)	27.12.2000	28.12.2000

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

सं. आई-18011/14/2009-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आई.पी.एस. अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती है :--

क्र. परिवीक्षाधीन आई.पी.एस. सं. अधिकारियों के नाम	आई.पी.एस. में नियुक्ति की तारीख	सामान्य स्थिति में परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने की तारीख	स्थायी किए जाने की तारीख
1. श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, (2004)	06.09.04	05.09.06	06.09.06
2. श्री सुनील कुमार चौधरी (2004)	06.09.04	05.09.06	06.09.06
3. श्री अन्नप्पा ई. (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07
4. श्री मुरलीधर (2005)	12.12.05	11.12.07	12.12.07
5. श्री शीश राम झाझरिया (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

-----

सं. आई-18011/18/2009-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आई.पी.एस. अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती है :--

क्र. परिवीक्षाधीन आई.पी.एस. सं. अधिकारियों के नाम	आई.पी.एस. में नियुक्ति की तारीख	सामान्य तौर पर परिवीक्षा अवधि के पूरी होने की तारीख	स्थायीकरण की नियत तारीख
1. श्री कुलदीप द्विवेदी	22.08.05 (पूर्वाह्न)	21.08.07	22.08.07
2. श्री अभिषेक	22.08.05 (पूर्वाह्न)	21.08.07	22.08.07
3. श्री पंकज काम्बोज	22.08.05 (पूर्वाह्न)	21.08.07	22.08.07
4. श्री असीम विक्रम मिंज	22.08.05 (पूर्वाह्न)	21.08.07	22.08.07

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

-----

सं. आई-18011/15/2009-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आई.पी.एस. अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती है :--

क्र. परिवीक्षाधीन आई.पी.एस. सं. अधिकारियों के नाम	आई.पी.एस. में नियुक्ति की तारीख	सामान्य स्थिति में परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने की तारीख	स्थायी किए जाने की तारीख
1. श्री सचिन बादशाह (2004)	03.01.05	02.01.07	03.01.07
2. श्री हिमांशु शुक्ला (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07
3. श्री राघवेंद्र वत्स (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07
4. श्री प्रेमवीर सिंह (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07
5. श्री मनिन्द्र सिंह प्रताप सिंह पवार (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

सं. आई-18011/16/2009-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आई.पी.एस. अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती है :--

क्र. परिवीक्षाधीन आई.पी.एस. सं. अधिकारियों के नाम	आई.पी.एस. में नियुक्ति की तारीख	सामान्य तौर पर परिवीक्षा अवधि के पूरी होने की तारीख	स्थायीकरण की नियत तारीख
1. श्री प्रदीप गुप्ता (1995)	06.09.96	05.09.98	06.09.98
2. डॉ. आनन्द छाबड़ा (2001)	02.09.01	01.09.03	02.09.03
3. श्री राहुल शर्मा (2002)	02.09.02	01.09.04	02.09.04
4. श्री ओम प्रकाश पाल (2003)	01.09.03	31.08.05	01.09.05
5. श्री सुन्दरराज पी. (2003)	06.09.03	05.09.05	06.09.05
6. श्री रतन लाल (2003)	01.09.03	30.08.05	01.09.05
7. श्री अंकित कुमार गर्ग (2004)	06.09.04	05.09.06	06.09.06
8. श्री अजय कुमार यादव (2002)	06.09.04	05.09.06	06.09.06
9. श्री अविनाश मोहंती (2005)	06.01.06	05.01.08	06.01.08
10. श्री राहुल भगत (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07
11. श्री राजेन्द्र नारायणदास (2006)	29.08.06	28.08.08	29.08.08

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

-----

दिनांक 30 अक्टूबर 2009

सं. आई-11014/7/2009-आई.पी.एस.-IV--केन्द्र सरकार, सुश्री असलम खान, भारतीय पुलिस सेवा (मध्य प्रदेश : 2007) का विवाह श्री पंकज कुमार सिंह, भा. पु. से. (ए जी एम यू टी : 2008) के साथ हो जाने के आधार पर, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मध्य प्रदेश सरकार तथा गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के यू टी प्रभाग की सहमति से सुश्री असलम खान का स्थानान्तरण मध्य प्रदेश से एजीएमयूटी के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2009

सं. ए-32013/2/2009-प्रशा.-I--इस विभाग के दिनांक 25.08.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-के.से.-I के अनुसार वर्ष 2003 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I अधिकारियों की चयन सूची में उनके नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप,

राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित अवर सचिवों को उनके सामने दी गई तारीख से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	नियमित नियुक्ति की तारीख
1	2	3
1.	श्री हरीश चन्द्र अवर सचिव (सीएसएल सं. 4235)	01.07.2003
2.	श्रीमती सती मोहन दास अवर सचिव (सीएसएल सं. 4408)	01.07.2003
3.	श्री अमर बलराम अवर सचिव (सीएसएल सं. 4414)	01.07.2003
4.	श्री आनन्द कुमार पटनी अवर सचिव (सीएसएल सं. 4415)	01.07.2003
5.	श्री ए. के. श्रीवास्तव अवर सचिव (सीएसएल सं. 4426)	01.07.2003
6.	श्रीमती प्रतिमा त्यागी अवर सचिव (सीएसएल सं. 4487)	01.07.2003
7.	श्री एस. के. अरोड़ा अवर सचिव (सीएसएल सं. 4544)	01.07.2003
8.	श्री चन्द्र प्रकाश अवर सचिव (सीएसएल सं. 4556)	01.07.2003
9.	श्री जय प्रकाश अवर सचिव (सीएसएल सं. 4567)	01.07.2003
10.	श्री जी. एस. पुण्डीर अवर सचिव (सीएसएल सं. 4578)	01.07.2003
11.	डॉ. रीना सेठी अवर सचिव (सीएसएल सं. 4688)	01.07.2003
12.	श्री पी. पी. कालरा (31.08.2007 को सेवानिवृत्त) अवर सचिव (सीएसएल सं. 4742)	01.07.2003
13.	श्री अमरजीत सिंह अवर सचिव (सीएसएल सं. 4775)	01.07.2003
14.	श्री वी. ए. पिल्लई (30.09.2008 को सेवानिवृत्त) अवर सचिव (सीएसएल सं. 4799)	01.07.2003
15.	श्री पी. के. रवि अवर सचिव (सीएसएल सं. 4809)	01.07.2003
16.	श्री तेजा सिंह अवर सचिव (सीएसएल सं. 4834)	01.07.2003
17.	श्री रविन्द्र कुमार अवर सचिव (सीएसएल सं. 4844)	01.07.2003

1	2	3
18.	मौ. मोनिरुज्जामन अवर सचिव (सीएसएल सं. 4863)	01.07.2003
19.	श्री कबीन्द्र जोशी अवर सचिव (सीएसएल सं. 5082)	01.07.2003
20.	श्री एम. एस. शर्मा अवर सचिव (सीएसएल सं. 5120)	01.07.2003
21.	श्री ए. के. कश्यप अवर सचिव (सीएसएल सं. 5149)	01.07.2003
22.	श्री जेरोम मिंज अवर सचिव (सीएसएल सं. 5930)	01.07.2003

के. के. बजाज, अवर सचिव

#### विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2009

सं. 18/पीबी-1/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेडों II और III के अधिकारी श्री चिरंजी लाल, (जन्म तिथि : 24.09.1949) 30.09.2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. बी. वर्मा  
प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-I और III)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2009

#### शुद्धिपत्र

सं. क्यू/पीएफ/661/4/2004--कृपया भारत के प्रधान कौंसलावास, जद्दा में कौंसुल श्री शकील अहमद की विदेश मंत्रालय के दुभाषिया संवर्ग में दुभाषिया (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में नियुक्ति से संबंधित दिनांक 06 जुलाई, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना का संदर्भ लें।

उपर्युक्त अधिसूचना में वरिष्ठ दुभाषिया (चयन ग्रेड) के स्थान पर दुभाषिया (वरिष्ठ वेतनमान) पढ़ा जाए।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव

#### वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

सं. 92 : (फा.सं. ए-19011/21/2009-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री सतीश कुमार गोयल, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 75) को दिनांक 01.10.2009 (अपराह्न)से, अगले आदेशों तक अथवा उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर पर 80,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं

सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु.) में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में सदस्य के रूप में श्री सतीश कुमार गोयल, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 75) की नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), मुम्बई पीठ (अब प्रधान पीठ, नई दिल्ली को स्थानांतरित) के समक्ष श्री एम. द्विवेदी, मुख्य आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर मुम्बई द्वारा दायर मूल आवेदन सं. 537/2008 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 अक्टूबर 2009

सं. 94 : (फा.सं. ए-50/150/2008-प्रशा.-1)--अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में सहायकों को नियुक्त करने वाली इस विभाग की पूर्व अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को दिनांक 31.12.2009 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो पहले हो, राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम
1	2
	(सर्वश्री)
1.	अभिजीत प्रसाद
2.	अशोक कुमार मिन्हास
3.	अशोक कुमार
4.	बिद्या नंद लाल
5.	बिमला शर्मा (श्रीमती)
6.	सी. के. चोपड़ा (श्रीमती)
7.	सी. पी. सक्सेना
8.	जगदीश कुमार
9.	के. बी. प्रताप
10.	कुमुंद कपूर (श्रीमती)
11.	एम. एल. शर्मा
12.	एम. एस. कैथ
13.	मानवेन्द्र प्रताप
14.	मंजीत एन. पी. एस. बेदी
15.	मंजु चन्द्र (श्रीमती)
16.	मंजुला शारदा (श्रीमती)

1	2
17.	एन. सी. इसरानी
18.	एन. के. सिन्हा
19.	एन. वी. चार
20.	नरेश बदान (श्रीमती)
21.	पी. के. शर्मा
22.	आर. के. मेहन्दीरत्ता
23.	आर. आर. गुप्ता
24.	रीता लारोइया (श्रीमती)
25.	एस. एन. शर्मा
26.	एस. सी. बनर्जी
27.	एस. एस. निर्वाण
28.	संतोष अरोड़ा
29.	सावित्री प्रताप (श्रीमती)
30.	सुरेश यादव
31.	उमा खट्टर (श्रीमती)
32.	वी. के. अटवाल

2. तदर्थ नियुक्ति व्यक्तियों को अनिश्चित रूप से ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2009

सं. ए-12011/4/2008-प्रशा.-1ए--इस विभाग की दिनांक 26 मई, 2009 की अधिसूचना सं.ए-12011/4/2008-प्रशा.-1ए के क्रम में, श्रीमती दक्षिता दास (आईआरएस : 86) की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में, 10,000/- रुपए ग्रेड वेतन सहित, 37,400/-67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 में सहायता, लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक के पद में प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को 12.10.2009 से 11.10.2010 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया जाता है।

एस. के. घिल्लियाल, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 2009

सं. ए-20011/243/2004-स्थापना--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्रीमती शशि कला, अनुभाग अधिकारी, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं

विभाग 30 सितम्बर, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

दिनांक 16 अक्टूबर 2009

सं. ए-19011/256/2005-स्थापना--राष्ट्रपति श्री सूरज मल, रक्षा मंत्रालय, संयुक्त सचिव (टी) तथा सीएओ का कार्यालय, नई दिल्ली में सहायक की वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में लेखा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को पाँचवें वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 15.10.2009 से 14.10.2010 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं। उनकी प्रतिनियुक्ति कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 2009 के का.ज्ञा. सं. 2/6/2009-स्था. (वेतन II) के निबंधनों के अंतर्गत अभिशासित होगी।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

सं. पीएफजी (1)/2009-प्रशा-III--राष्ट्रपति, श्री अनुज कुमार विश्नोई, भा.प्र.से. (उ. प्र. : 1981) को कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत गंधीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय में 37,400--67,000/- रुपये (पी. बी.-4) के साथ 10,000/- रुपये ग्रेड पे पर 25 सितम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पांच वर्षों की अवधि के लिए (अर्थात् दिनांक 25.09.2009 से 24.09.2014 तक) निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. मेहता, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अक्टूबर 2009

सं. पी.एफ.जी. (723)/09-प्रशा.-II--श्री परविन्द्र सिंह ने दिनांक 01.10.2009 के कार्यालय आदेश संख्या ए. 12011/06/2007-प्रशा.- II के अनुसरण में भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के जूनियर समयमान में 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ पी.बी.-3, 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान में नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में दिनांक 01.10.2009 (पूर्वाह्न) से सहायक निदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

सं. पी.एफ.जी. (720)/09-प्रशा.-II--श्री वी. एम. प्रसांत ने दिनांक 07.09.2009 के कार्यालय आदेश संख्या ए. 12011/06/2007-प्रशा. II के अनुसरण में भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के जूनियर समयमान में 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ पी.बी.-3, 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान में नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में दिनांक 26.10.2009 (पूर्वाह्न) से सहायक निदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्टूबर 2009

सं. 27/2009(ए-32012/4/2009-ई-1)--राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सी.एस.-I, में दिए गए आदेशानुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I की वर्ष 2003 की चयन सूची (एसएल) में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में सेवानिवृत्त निम्नलिखित सीएसएस अधिकारियों को दिनांक 1 जुलाई, 2003 से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/ सीएसएस सं.	संबंधित विभाग	अधिवाषिकी की आयु प्राप्त करने/स्वै. से. निवृत्ति की तारीख
1.	श्री के. सी कुमार (5174)	वाणिज्य विभाग (मुख्य)	31.10.2005
2.	श्री प्रभु सिंह (4329)	वाणिज्य विभाग (मुख्य)	01.08.2008
3.	सुश्री किरण सहगल (4373)	डीजीएफटी का कार्यालय	01.05.2008
4.	श्री जी. अनबालागन (4674)	डीजीएफटी का कार्यालय	01.07.2006

2. सीएसएस के ग्रेड-I में उनकी परस्पर वरिष्ठता ग्रेड-I में उनकी वास्तविक नियुक्ति की तारीख पर ध्यान दिए बिना उनकी संबंधित चयन सूची में दिए गए क्रमानुसार होगी।

3. उपर्युक्त चयन सूची से अधिकारियों की अवर सचिव के पद पर नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई सिविल रिट याचिका सं. 13352/2005 के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

आर. के. मित्रा, निदेशक

दिनांक 7 अक्टूबर 2009

सं. ए-19011/4/2002-ई-1--राष्ट्रपति द्वारा श्री एस. के. सामल, आईटीएस को 6 अक्टूबर, 2009 के पूर्वाह्न से अगले चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 37,400--67,000/- रुपए + 8,700/- रु. ग्रेड पे के वेतन बैंड में निदेशक (विदेश व्यापार) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर. के. मित्रा, निदेशक

सं. ए-19011/4/2002-ई-1--राष्ट्रपति द्वारा श्री सतीश कुमार को 01 अक्टूबर, 2009 के पूर्वाह्न से अगले चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 37,400--67,000/- रुपए + 8,700/- रुपए ग्रेड पे के वेतन बैंड में निदेशक (विदेश व्यापार) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर. के. मित्रा, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2009

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक अक्टूबर 2009

सं. ए-12022/4/2006-ई-II--चयन सूची वर्ष 2006 हेतु सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड "क एवं ख" (आमेलित) (निजी सचिव) की चयन सूची में उनको शामिल किए जाने तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 सितम्बर, 2009 के का.ज्ञा. सं. 5/12/2008-सीएस-II द्वारा उन्हें जोनिंग स्कीम के तहत वाणिज्य विभाग के संवर्ग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप; राष्ट्रपति द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग में पदस्थ श्री बीरेन्द्र कुमार (अनुसूचित जनजाति) आशुलिपिक, ग्रेड "ग" को वेतन बैंड-2 (9,300--34,800 रुपए) + 4,800/- रुपए (ग्रेड वेतन) पर 30 सितम्बर, 2009 के अपराह्न से वाणिज्य विभाग में आशुलिपिक ग्रेड "क एवं ख" (आमेलित) में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री बीरेन्द्र कुमार, आशुलिपिक "क एवं ख" (आमेलित) (निजी सचिव) को 30 सितम्बर, 2009 के अपराह्न से वस्त्र मंत्रालय में तैनात किया जाता है।

राम लखन, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2009

सं. 14/2009फा. सं. 6/2459/2008/एचआरडी-1/4291--केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैंट) प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 7.10.2009 द्वारा, ओ.ए.सं. 2806/2009 में विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय आदेश सं. 75/2009 दिनांक 25.9.2009, जिसके द्वारा श्री शैलेश सिंह, आई.पी.एस. (एम.पी. : 87) को उनके मूल कैडर अर्थात् गृह मंत्रालय में प्रत्यावर्तित किया गया था, पर रोक लगा दी है। कैंट के उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, श्री शैलेश सिंह, आई.पी.एस. (एम.पी. : 87) के प्रत्यावर्तन पर रोक लगा दी गई है और उन्हें, अगले आदेशों तक विदेश व्यापार महानिदेशालय के अन्तर्गत संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुंबई के तौर पर पुनः नियुक्त किया जाता है।

सत्येन शारदा, संयुक्त महानिदेशक

सं. 15/2009फा. सं. 6/2502/2009/एचआरडी-1/4394--विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय आदेश सं. 93/2009 दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 के अनुसरण में, श्री महेन्द्र जैन, आई.ए.एस. (के.एन : 85), जो वर्तमान नवी मुम्बई, एस ई जेड के विकास आयुक्त के वास्तविक पद पर हैं, वे विदेश व्यापार महानिदेशालय के अन्तर्गत संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, मुम्बई के पद का अतिरिक्त पदभार भी संभालेंगे और इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय आदेश सं. 94/2009 दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 के अनुसरण में, तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक, विदेश व्यापार महानिदेशालय के अन्तर्गत उन्हें, "जोनल संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, मुम्बई" कार्यालय प्रमुख के रूप में नामित किया जाता है।

सत्येन शारदा, संयुक्त महानिदेशक

सं. ए. 32011/4/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की इस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में की गई तदर्थ नियुक्ति को 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड जमा 4,800/- रुपये ग्रेड वेतन में प्रत्येक के नाम के सामने वर्णित अवधि के लिए अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है :--

क्रम संख्या	नाम	बढ़ाई गई अवधि तक
(i)	श्रीमती अमृता	31.12.2009
(ii)	श्रीमती सुरिंदर रानी	31.12.2009
(iii)	श्री सुरेंद्र कुमार	31.12.2009
(iv)	श्रीमती प्रोमिला शुक्ला	31.12.2009
(v)	श्री एच बी सिंह	31.12.2009
(vi)	श्री टीकम सिंह	31.12.2009
(vii)	श्री बसंत कुमार	31.12.2009

2. उपरोक्त अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति सर्वथा तदर्थ स्वरूप की है और उनको इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक रहने का कोई अधिकार नहीं होगा या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के पद में वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकेंगे।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

सं. ए-19011/10/2009-मा सं.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19/10/2009 के आदेश सं. 17/3/2009-ईओ (एसएम.-I) के अनुपालन में राष्ट्रपति श्री सुब्बारायन कृष्णन, आई.ए.एस. (यूके : 75) को 22.10.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त करती है।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2009

सं. 3/11/2004-स्था.--राष्ट्रपति, श्री भूपाल नन्दा आईसीएसएस (93) को यूएनडीपी परियोजना के तहत अफगानिस्तान में विदेश नियुक्ति से उनके लौटने पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 20.12.2010 तक के लिए 23 सितम्बर, 2009 से खान मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रमोद चंद, अवर सचिव

सं. 3/9/2009-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.8.09 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सी एस-1 के अनुसार वर्ष 2003 के सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में उनका नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, खान मंत्रालय में कार्यरत श्रीमती नीता गुप्ता, अवर सचिव (तदर्थ) को 1 जुलाई, 2003 से नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रमोद चंद, अवर सचिव

सं. 3/9/2009-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.8.09 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सी एस-1 के अनुसार वर्ष 2003 के सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में उनका नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, खान मंत्रालय में कार्यरत श्री सी. के. रावत, अवर सचिव (तदर्थ) को 1 जुलाई, 2003 से नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रमोद चंद, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

सं ए-19011/189/2005-प्रशासन--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमवली, 1962 के नियम 12(2) तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I तथा चयन ग्रेड में पदोन्नति) विनियमन, 1964 के अंतर्गत श्री पी. जे. माईकल, अवर सचिव को दिनांक 01.07.2003 से अगले आदेश तक नियमित अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

जी. एस. बसरो, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 2009

सं. ए-32014/1/2006-स्था. I--राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) में केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'सी' को दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 (पूर्वाह्न) से चयन सूची वर्ष, 2006 के लिए वेतन बैंड-2, रुपए 9,300--34,800/- + ग्रेड पे-4,800/- रु. में आशुलिपिक ग्रेड 'ए और बी' (विलयित) के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :-

श्री पी. के. खेड़ा

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

सं. ए-38011/02/2009-स्था.--जैवप्रौद्योगिकी विभाग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, श्री यू. एस. रावत अपनी अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त होने

पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

बीना ई. चक्रावर्ती, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 अक्टूबर 2009

सं. जैड-20018/5/2005-सीपीए (.)--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री जे. सी. काला का कार्यकाल राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में छः माह की अवधि के लिए 1.11.2009 से 30.4.2010 तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष आगे बढ़ाती है। दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना की अन्य शर्तें वही बनी रहेंगी।

आर. के. सूरी, अपर निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी  
(आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

सं. ए-12026/1/2001-भाचिप0 (स्था. I)--डॉ. एस. रंगाविट्टल, चिकित्सा अधिकारी (होम्यो.), आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से बीआरएस लेने के बाद 16.10.2009 को अपराह्न सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुमन चटर्जी, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2009

सं. 12022/4/2009-स्था. I--इस विभाग की दिनांक 21.8.2009 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति, डॉ. बी. अशोक, भा.प्र. सेवा (के.एल. 98) को सात वर्षों की मिश्रित अवधि के लिए अथवा जब तक मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें रोक नहीं जाता अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए दिनांक 17.8.2009 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड-3, रुपए 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/- में उप सचिव के स्तर पर माननीय कृषि राज्य मंत्री (प्रौ. के. वी. थॉमस) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 7 अक्टूबर 2009

सं. 32014/1/2009-स्था. I--वर्ष 2006 के लिए वरिष्ठता कोट्य में के.सचि.आशु. सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क एवं ख" (विलयित) की चयन सूची में उनके नामों को शामिल करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति कृषि एवं सहकारिता विभाग के संवर्ग मूल के.सचि.आशु. सेवा के



निम्नलिखित नियमित आशुलिपिक ग्रेड “ग” को उसी विभाग में दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 के पूर्वाह्न से आशुलिपिक ग्रेड क एवं ख (विलयित)(निजी सचिव) (पीबी-2, 9,300-34,800/-, ग्रेड वेतन 4,800/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

क्र.सं. अधिकारी का नाम

1. श्रीमती चांद प्रभा
2. श्रीमती सावित्री बख्तियानी

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 अक्टूबर 2009

सं. 23024/1/2009-स्था.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 के का.ज्ञा.सं. 4/1/2007-सी एस आई (डी) तथा दिनांक 30 जनवरी, 2009 के का.ज्ञा.सं. 4/9/2008-सी एस आई (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों (अवर सचिव) को उनके नाम के सामने उल्लिखित चयन सूची वर्ष के लिए सी एस एस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में शामिल करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	वर्ष
1.	श्री सतीश कुमार	2003
2.	श्री एच. सी. बतरा	2006
3.	श्री एस. आर. गोयल	2006

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 अक्टूबर 2009

सं. 2737/96-स्था-I--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के नियमित निजी सचिव श्रीमती दीपिका त्रिवेदी को तीन महीनों की नोटिस अवधि को छोड़ने के पश्चात् सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत 15.10.2009 के पूर्वाह्न से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त करते हैं बशर्ते कि उसे तीन महीनों अर्थात् 10.12.2009 की नोटिस अवधि समाप्ति से पूर्व उनके पेंशन के किसी भी भाग को कम्प्यूट करने के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 19 अक्टूबर 2009

सं. 27-2846/2009-स्था-I--राष्ट्रपति, सुश्री स्मृति शर्मा, आई पी ओ एस (1993) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 19 अक्टूबर, 2009 पूर्वाह्न से 5 वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इसमें जो पहले हो, वेतन बैंड-4 (37,400-67,000/- रु.) एवं ग्रेड वेतन 8,700/- रु. में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2009

सं. 12-1/07-एमएंडटी(प्रशा.)--राष्ट्रपति श्री चक्रधर विश्वनाथराव चिमोटे को केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, ट्रेक्टर नगर, पी. ओ. बुदनी (म.प्र.)-466445 में 22.9.2009 के पूर्वाह्न से रु. 15,600-39,100/- के वेतनमान और ग्रेड पे-5,400/- रुपए (समूह 'क', राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय) में जांच अभियंता (टेस्ट इंजीनियर) के पद पर नियुक्त करती हैं।

बी. बी. भगत, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 अक्टूबर 2009

सं. ए-19011/9/2007-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री जी. सुब्रमण्ण, उप सचिव (तदर्थ) को दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/1/2007-सीएस.1 (डी) के तहत चयन सूची वर्ष 2003 के चयन ग्रेड (उप सचिव) में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप 04.05.2007 पूर्वाह्न से 15,600-39,100+7,600 (ग्रेड पे) के वेतनमान में नियमित आधार पर उप सचिव नियुक्त करते हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2009

सं. 2-17/2008-मा.प्रशा.--राष्ट्रपति, डा. के. विजयकुमारन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीएमएफआरआई का मंगलौर अनुसंधान केंद्र को कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के तहत भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई में 16,400-20,000/- रुपए (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में महानिदेशक, सामान्य केंद्रीय सेवा समूह “क”, राजपत्रित, अननुसचिवीय पद पर एसटीसी आधार पर 9.10.2009 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

दिनांक 30 अक्टूबर 2009

सं. 3-49/2002-मात्स्यिकी (प्रशासन)--राष्ट्रपति, श्री महादेव रामा कोकणे को केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में 8,000-13,500/- (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में दिनांक 8.6.2009 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ अनुदेशक (मत्स्यन) (समूह “क” राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करती हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

सं. 3-17/2006-मात्स्यिकी (प्रशासन)--राष्ट्रपति, श्री सी. रेथीनाधास को केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में 12.10.2009 (पूर्वाह्न) से 10,000-15,200 रुपए (पूर्व

संशोधित) के वेतनमान पर 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपनिदेशक (श्रेणी "क" राजपत्रित) नियुक्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)  
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

सं. पीएफ/83/एनआईसी/2009-प्रशासन-I--श्री ओम प्रकाश सचदेवा, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड सं. 83), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

सं. ई.11016/5/2008-हिन्दी--केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के उप नियम 10(4) के अनुसरण में पर्यटन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारी वर्ग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :--

1. अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स, कोलकाता
2. कोसी रेस्टोरेट, कोसी

देवेश चतुर्वेदी, अपर महानिदेशक

सं. ई.11016/5/2008-हिन्दी--केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के उप नियम 10(4) के अनुसरण में पर्यटन मंत्रालय के अधीन भारत पर्यटन, हैदराबाद को जिनके कर्मचारी वर्ग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :--

भारत पर्यटन, हैदराबाद  
(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार)  
दूसरा तल, नेताजी भवन,  
लिबर्टी रोड, हिमायत नगर,  
हैदराबाद,  
आंध्र प्रदेश-500026

देवेश चतुर्वेदी, अपर महानिदेशक

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

सं. ए-12025/01/07-आर.एस. (पार्ट)--राष्ट्रपति, भारतीय रेलवे के वरिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी के अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह (आई.

आर.एस.एम.ई.) को दिनांक 23 सितम्बर, 2009 से नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में रेल संरक्षा आयुक्त, वेतनमान रु. 67,000-79,000/- (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 22,400-525-24,500/-), के पद पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त अधिकारी कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक परीक्षा पर रहेंगे।

ओमा नन्द, अवर सचिव

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2009

सं. ई(जी.पी.)2007/3/8--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के यातायात सेवा के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारी की उल्लिखित रेलवे पर 18.06.2009 से भारतीय रेल यातायात सेवा (आई. आर. टी. एस.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

2008-09 के लिए पैनल

अधिकारी का नाम

दक्षिण पूर्व रेलवे

श्री के. एन. बिस्वास (अ.जा.)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2009/आरएन/13--कॉनकोर में स्थायी समाहन के परिणामस्वरूप, श्री पी. के. अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भा.रे.या.से. ने 29.09.2009 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2009/आरएन/14--कॉनकोर में स्थायी समाहन के परिणामस्वरूप, श्री सुशील कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भा.रे.या.से. ने 29.09.2009 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2009/आरएन/15--कॉनकोर में स्थायी समाहन के परिणामस्वरूप, श्री शहनवाज अली, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भा.रे.या.से. ने 29.09.2009 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2009

सं. 18/2009 (फाइल सं. ए-32013/5/2008-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) के निम्नलिखित अधिकारियों को

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (निदेशक/अधीक्षण इंजीनियर) में रु. 14,300-400-18,300/- के संशोधन पूर्व वेतनमान में, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेश जारी होने तक के लिए नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	घनश्याम प्रसाद	01 सितम्बर 2009 (पूर्वाह्न)
2.	प्रवीन गुप्ता	01 सितम्बर 2009 (पूर्वाह्न)
3.	हेमंत जैन	01 सितम्बर 2009 (पूर्वाह्न)
4.	जी. सी. जोशी	01 सितम्बर 2009 (पूर्वाह्न)
5.	नरेन्द्र सिंह	01 सितम्बर 2009 (पूर्वाह्न)
6.	एम. एस. सतीजा	03 सितम्बर 2009 (पूर्वाह्न)

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

सं. 30/2009 (फा. सं. 2/1/2009-प्रशा.-II)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 अक्टूबर, 2009 के कार्यालय आदेश सं. 4/1/2009-सीएस.आई(डी) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसरण में, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री डी.बी. सिंह को वर्ष 2007 की चयन सूची में, 12 अक्टूबर, 2009

के पूर्वाह्न से रुपए 15,600-39,100/- के वेतन बैंड और रु. 7,600/- के ग्रेड वेतन में, सीएसएस की चयन श्रेणी (उप सचिव) में नियुक्त किया जाता है।

श्री सिंह, एफआर 22(1) (क) (1) के अंतर्गत चयन सूची वर्ष (2007) की 01 जुलाई से वेतन के सैद्धांतिक निर्धारण के पात्र होंगे तथा वेतन निर्धारण के वास्तविक लाभ उप सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 12 अक्टूबर, 2009 से स्वीकार्य होंगे।

मधुकर सूद, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 2009

सं. ए-12026/2/2008-एस.एस.-I--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 घ की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्रीकांत नायक, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भुवनेश्वर को 22,400-525-24,500/- रुपए (पूर्व संशोधित छठ केन्द्रीय वेतन आयोग) के वेतनमान में कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के पीठासीन अधिकारी के रूप में पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करती हैं।

ए. के. गुप्ता, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 29th October 2009

No. A-22012/1/2009-PMA(Estt.)—The President is pleased to appoint Shri M.S.S. Nair, (CSL No. 4410) presently officiating as Under Secretary on ad hoc basis in the Prime Minister's Office to the Grade-I of Central Secretariat Service (Under Secretary) on regular basis with effect from 01.07.2003.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 26th October 2009

No. RS/36(i)/2007/88-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of Dr. Vivek Kumar Agnihotri, IAS (Retd.) as Secretary-General, Rajya Sabha on existing terms and conditions for a period of one year with effect from the forenoon of the 29th October, 2009.

D. B. SINGH, Joint Secy.

New Delhi-110001, the 27th October 2009

No. RS/6/4/2009/89-Perl.—Shri Shiv Kumar Singh has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the personal staff of Chairman, Committee on Papers Laid on the Table (Shri Santosh Bagrodia) with effect from the forenoon of 24th September, 2009, until further orders.

2. The appointment of Shri Shiv Kumar Singh is at the discretion of the present Chairman, Committee on Papers Laid on the Table and will be co-terminus with the term of his office.

SUNDIP MESRA, Executive Officer

The 28th October 2009

No. RS/3/7(1)/2009/90-Perl.—The following Translators who were earlier appointed to officiate as Editor on ad hoc basis vide Notification No. RS/3/7(1)/2009/19-Perl. dated 5th May, 2009 and No. RS/3/7(1)/2009/35-Perl. dated 1st July, 2009, respectively, have now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of 27th October, 2009, until further orders :—

- (i) Shri Vipin Kumar
- (ii) Shri Rajesh Verma

SUNDIP MESRA, Executive Officer

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 4th September 2009

No. 3(12)/2009-Admn.—In supersession of this Ministry's notification of even No. dated 28.08.2009, the

President is pleased to appoint Shri Z. A. Naqvi, as Private Secretary on the personal staff of Minister for Parliamentary Affairs (Shri Pawan Kumar Bansal) in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. 28.05.2009.

2. The appointment is at the pleasure of and co-terminous with the tenure of the Minister or till he ceases to function as PS to the Minister, or until further orders, whichever event occurs at the earliest.

REWA RANI, Dy. Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 28th October 2009

No. A-12026/8/2005-Admn.-I(L.D.)—The President is pleased to appoint Shri Prakash Chand, Additional Legislative Counsel (Hindi) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice, to officiate as Joint Secretary & Legislative Counsel (Hindi) in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 28th October, 2009 and until further orders.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

No. A-38020/2/2006-Admn.-I(L.D.)—Shri R. K. Gautam, Superintendent (Technical), Official Languages Wing in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice, will stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2009 on attaining the age of superannuation.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

## DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 30th October 2009

No. A-38012/05/2009-Admn.-IV(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri V. Ravindran, Under Secretary, Department of Legal Affairs, retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2009.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

## DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 7th October 2009

No. K-13027/6/2008-US-II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Mehinder Singh Sullar (2) Shri Ram Chand Gupta and (3) Shri Gurdev Singh to be Additional Judges of the Punjab & Haryana High Court, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their offices.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 27th October 2009

No. I-18011/19/2009-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Ms. Vimmi Sachdeva, IPS (Uttarakhand : 2003), in the Indian Police Service with effect from 01.09.2005.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-18011/6/2005-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule 3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS officers in Indian Police Service with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Date of appointment of IPS	Date of completion of period of probation in normal course	Due date of confirmation in the normal course
1.	Sh. Vivekanand (RR:96)	07.09.97 (AN)	07.09.99	08.09.99
2.	Sh. Dipanshu Kabra (RR:97)	25.08.97 (FN)	24.08.99	25.08.99
3.	Sh. Amit Kumar (RR:98)	28.12.98 (FN)	27.12.2000	28.12.2000

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-18011/14/2009-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule 3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS officers in Indian Police Service with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Date of appointment of IPS	Date of completion of period of probation in normal course	Due date of confirmation in the normal course
1.	Sh. Praveen Kr. Tripathi, (2004)	06.09.04	05.09.06	06.09.06
2.	Sh. Sunil Kr. Choudhary (2004)	06.09.04	05.09.06	06.09.06
3.	Sh. Annappa E. (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07
4.	Sh. Murlidhar (2005)	12.12.05	11.12.07	12.12.07
5.	Sh. Sheesh Ram Jhajharia (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-18011/18/2009-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule 3A of Indian Police Service (Probation)

Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS officers in Indian Police Service with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Date of appointment of IPS	Date of completion of period of probation in normal course	Due date of confirmation in the normal course
1.	Sh. Kuldip Diwedi	22.08.05 (FN)	21.08.07	22.08.07
2.	Sh. Abhishek	22.08.05 (FN)	21.08.07	22.08.07
3.	Sh. Pankaj Camboj	22.08.05 (FN)	21.08.07	22.08.07
4.	Sh. Asim Vikram Minz	22.08.05 (FN)	21.08.07	22.08.07

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-18011/15/2009-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule 3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS officers in Indian Police Service with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Date of appointment of IPS	Date of completion of period of probation in normal course	Due date of confirmation in the normal course
1.	Sh. Sachin Badshah (2004)	03.01.05	02.01.07	03.01.07
2.	Sh. Himanshu Shukla (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07
3.	Sh. Raghavendra Vatsa (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07
4.	Sh. Premvir Singh (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07
5.	Sh. Maninder Singh Partap Singh Pawar (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-18011/16/2009-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule 3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS officers in Indian Police Service with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Date of appointment of IPS	Date of completion of period of probation in normal course	Due date of confirmation in the normal course
1	2	3	4	5
1.	Sh. Pradeep Gupta (1995)	06.09.96	05.09.98	06.09.98
2.	Dr. Anand Chhabra (2001)	02.09.01	01.09.03	02.09.03

1	2	3	4	5
3.	Sh. Rahul Sharma (2002)	02.09.02	01.09.04	02.09.04
4.	Sh. Om Prakesh Pal (2003)	01.09.03	31.08.05	01.09.05
5.	Sh. Sundarraj P. (2003)	06.09.03	05.09.05	06.09.05
6.	Sh. Ratan Lal (2003)	01.09.03	30.08.05	01.09.05
7.	Sh. Ankit Kumar Garg (2004)	06.09.04	05.09.06	06.09.06
8.	Sh. Ajay Kumar Yadav (2002)	06.09.04	05.09.06	06.09.06
9.	Sh. Avinash Mohanty (2005)	06.01.06	05.01.08	06.01.08
10.	Sh. Rahul Bhagat (2005)	22.08.05	21.08.07	22.08.07
11.	Sh. Rajendra Narayandas (2006)	29.08.06	28.08.08	29.08.08

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

The 30th October 2009

No. I-11014/7/2009-IPS.IV—In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rule, 1954, and with the concurrence of the Government of Madhya Pradesh and the UT Division of the Ministry of Home Affairs, New Delhi, the Central Government hereby transfers Ms. Aslam Khan, IPS (Madhya Pradesh : 2007), from Madhya Pradesh to the IPS Cadre of AGMUT on the ground of her marriage with Shri Pankaj Kumar Singh, IPS (AGMUT : 2008).

RAJINDER KUMAR  
Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
AND PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 9th September 2009

No. A.32013/2/2009-Ad.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Grade I Officers of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2003 in terms of this Department's Officer Memorandum No.5/16/2007-CS.I, dated 25.08.2009, the President is pleased to appoint the following Under Secretaries of Department of Personnel and Training on regular basis with effect from the date mentioned against each:-

S. No.	Name of the Officer	Date of regular Appointment
1	2	3
1.	Shri Harish Chander, Under Secretary (CSL No. 4235)	01.07.2003
2.	Smt. Sati Mohan Das Under Secretary (CSL No. 4408)	01.07.2003

1	2	3
3.	Shri Amara Balaram Under Secretary (CSL No. 4414)	01.07.2003
4.	Sh. Anand Kumar Patney Under Secretary (CSL No. 4415)	01.07.2003
5.	Shri A. K. Srivastava Under Secretary (CSL No. 4426)	01.07.2003
6.	Smt. Pratima Tyagi Under Secretary (CSL No. 4487)	01.07.2003
7.	Shri S. K. Arora Under Secretary (CSL No. 4544)	01.07.2003
8.	Shri Chandra Praksah Under Secretary (CSL No. 4556)	01.07.2003
9.	Shri Jai Prakash Under Secretary (CSL No. 4567)	01.07.2003
10.	Shri G. S. Pundir Under Secretary (CSL No. 4578)	01.07.2003
11.	Smt. Dr. Reena Sethi Under Secretary (CSL No. 4688)	01.07.2003
12.	Shri P. P. Kalra (Retired on 31.8.2007) Under Secretary (CSL No. 4742)	01.07.2003
13.	Shri. Amarjit Singh Under Secretary (CSL No. 4775)	01.07.2003
14.	Shri V. A. Pillai (Retired on 30.9.2008) Under Secretary (CSL No. 4799)	01.07.2003
15.	Shri P. K. Ravi Under Secretary (CSL No. 4809)	01.07.2003
16.	Shri Teja Singh Under Secretary (CSL No. 4834)	01.07.2003
17.	Shri Ravinder Kumar Under Secretary (CSL No. 4844)	01.07.2003
18.	Md. Moniruzzaman Under Secretary (CSL No. 4863)	01.07.2003
19.	Shri Kabindra Joshi Under Secretary (CSL No. 5082)	01.07.2003
20.	Shri M. S. Sharma Under Secretary (CSL No. 5120)	01.07.2003
21.	Shri A. K. Cashyap Under Secretary (CSL No. 5149)	01.07.2003
22.	Shri Jerome Minz Under Secretary (CSL No. 5930)	01.07.2003

K. K. BAJAJ, Under Secy.

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 9th October 2009

No. 18/PB-I/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Chiranjil Lal, (DOB : 24.09.1949), an officer of the integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government service in the afternoon of 30.09.2009.

M. B. VERMA, Administrative  
Officer (PB-I & III)

New Delhi, the 21st October 2009

## CORRIGENDUM

No. Q/PF/661/4/2004—Reference notification of even no. dated 6th July, 2009 regarding appointment of Sh. Shakeel Ahmed, Consul, CGI, Jeddah as Interpreter (Senior Scale) in the Interpreters Cadre of the Ministry of External Affairs.

'Senior Interpreter (Selection Grade)' may please be read as 'Interpreter (Senior Scale)' in the above notification.

R. GAURAV SHRESTH, Deputy Secy

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 12th October 2009

No. 92: (F.No. A-19011/21/2009-Ad.I):—The President of India is pleased to appoint Shri Satish Kumar Goel, IRS (C&CE:75) as member of the Central Board of Excise and Customs (CBEC) in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Scale of Rs. 80,000/-(fixed) with the status of Special Secretary to the Govt. of India with effect from 01.10.2009 (AN) and until further orders or his superannuation, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Satish Kumar Goel, IRS (C&CE: 75), as Member, CBEC is subject to the final outcome of the Original Application No. 537 of 2008 filed by Shri M. Dwivedi, Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax, Mumbai before the Central Administrative Tribunal (CAT), Mumbai Bench (now transferred to the Principal Bench, New Delhi).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 16th October 2009

No. 94 : (F. No. A-50/150/2008-Ad. I)—In continuation of this Department's earlier Notifications appointing Assistants of this Department as Section Officer (Ad-hoc), the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of the following Assistants of Finance Cadre of CSS as Section Officers (Ad-hoc) in the Department of Revenue for the period upto

31.12.2009 or till regular Section Officers are made available, whichever is earlier :—

S. No.	Name
	(S/Shri)
1.	Abhijit Prasad
2.	Ashok Kr. Minhas
3.	Ashok Kumar
4.	Bidya Nand Lal
5.	Mrs. Bimla Sharma
6.	Mrs. C. K. Chopra
7.	C. P. Saxena
8.	Jagdish Kumar
9.	K. B. Pratap
10.	Mrs. Kumud Kapur
11.	M. L. Sharma
12.	M. S. Kainth
13.	Manavendra Pratap
14.	Manjit N. P. S. Bedi
15.	Mrs. Manju Chandra
16.	Mrs. Manjula Sharda
17.	N. C. Israni
18.	N. K. Sinha
19.	N. V. Char
20.	Mrs. Naresh Badhan
21.	P. K. Sharma
22.	R. K. Mehndiratta
23.	R. R. Gupta
24.	Mrs. Rita Laroiya
25.	S. C. Sharma
26.	S. N. Banerjee
27.	S. S. Nirwan
28.	Santosh Arora
29.	Mrs. Savitri Pratap
30.	Suresh Yadav
31.	Mrs. Uma Khattar
32.	V. K. Atwal

2. The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular

appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade of CSS.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 27th October 2009

No. A-12011/4/2008-Ad-IA—In continuation of this Department's Notification No. A-12011/4/2008-Ad-I dated 26th May, 2009, the term of deputation of Smt. Dakshita Das (IRAS : 86), in the post of Controller of Aid, Accounts and Audit in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs is further extended for the period w.e.f. 12.10.2009 to 11.10.2010 or until further orders, whichever is earlier.

S. K. GHILDIAL, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, he 17th August 2009

No. A-20011/243/2004-Estt.—On attaining the age of superannuation Smt. Shashi Kala, Section Officer in the Ministry of Finance, Department of Financial Services will retire from the Government Service with effect from the afternoon of 30th September, 2009.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

The 16th October 2009

No. A-19011/256/2005-Estt.—The President is pleased to extend the deputation period of Shri Suraj Mal, Assistant in the Ministry of Defence, Office of J.S.(T) & CAO, New Delhi as Accounts Officer in the Department of Financial Services, Ministry of Finance for the fifth year i.e. from 15.10.2009 to 14.10.2010 or until further orders whichever is earlier. His deputation would be governed in terms of DOPT's O. M. No. 2/6/2009-Estt. (Pay II) dated 25th February, 2009.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 13th October 2009

No. PFG(1)/2009-Admn. III—The President is pleased to appoint Shri Anuj Kumar Bishnoi, IAS (UP ; 1981) to the post of Director (Joint Secretary level) of Serious Fraud Investigation Office under the Ministry of Corporate Affairs, New Delhi in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for a normal tenure of five years (i.e. from 25.9.2009 to 24.9.2014) with effect from the forenoon of 25th September, 2009 or until further orders, whichever is earlier.

V. K. MEHTA, Under Secy.

New Delhi, the 26th October 2009

No. PFG(723)/09-Admn. II—Consequent upon his appointment to the Junior Time Scale of the Indian Corporate Law Service in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in pursuance to the Office Order No. A-12011/06/2007-Admn. II dated 01.10.2009, Shri Parvinder Singh has assumed the charge of the post of Assistant Director in the Headquarters of the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. 01.10.2009 (F.N.).

J. S. GUPTA, Under Secy.

No. PFG(720)/09-Admn. II—Consequent upon his appointment to the Junior Time Scale of the Indian Corporate Law Service in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in pursuance to the Office Order No. A-12011/06/2007-Admn. II dated 07.09.2009, Shri V. M. Prasanth has assumed the charge of the post of Assistant Director in the Headquarters of the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. 26.10.2009 (F.N.).

J. S. GUPTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 6th October 2009

No. 27/2009 (A-32012/4/2009-E.I.)—Consequent upon their inclusion in the Select List (SL) of 2003 for Grade-I of Central Secretariat Service (CSS) as per orders contained in Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/16/2007-CS. I, dated the 25th August, 2009, the President is pleased to appoint the following CSS officers, retired as Under Secretary (ad-hoc), to Grade-I of CSS (Under Secretary) on regular basis in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, with effect from 1st July, 2003 :—

S. No.	Name of the Officer/CSL	Concerned Department	Date of Superannuation/VRS
1.	Sh. K. C. Kumar (5174)	DOC (Proper)	31.10.2005
2.	Sh. Prabhu Singh (4329)	DOC (Proper)	01.08.2008
3.	Ms. Kiran Sehgal (4373)	O/o D.G.F.T.	01.05.2008
4.	Sh. G. Anbalagan (4674)	O/o D.G.F.T.	01.07.2006

2. Their inter-se Seniority in Grade-I of CSS will follow the serial order given in their respective SL irrespective of their actual date of appointment to Grade-I.

3. The appointment of Officers to the post of Under Secretaries from the above Select List shall be subject to the final decision in the Civil Writ Petition No. 13352/2005 filed in the High Court of Delhi.

R. K. MITRA, Director

The 7th October 2009

No. A-19011/4/2002-E.I.—The President is pleased to appoint Sh. S. K. Samal, ITS as Director (FT) in the Pay



Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the forenoon of 6th October, 2009, for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

R. K. MITRA, Director

No. A-19011/4/2002-E.I.—The President is pleased to appoint Sh. Satish Kumar as Director (FT) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the forenoon of 1st October, 2009, for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

R. K. MITRA, Under Secy.

New Delhi, the 19th October 2009

F. No. A-12022/4/2006-E-II—Consequent upon his inclusion in the Select List of Stenographers Grade 'A & B' (merged) (PS) of CSSS for the Select List Year 2006 and his nomination to the cadre of Department of Commerce under the Zoning Scheme by the Department of Personnel & Training vide their O. M. No. 5/12/2008-CS. II dated 3rd September, 2009, the President is pleased to appoint Shri Birendra Kumar (ST), Steno. Grade 'C' of CSSS cadre of the Ministry of Health & Family Welfare as Stenographer Grade 'A & B' (merged) in the Department of Commerce with effect from the afternoon of the 30th September, 2009 in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + Rs. 4,800/- (Grade Pay).

2. Shri Birendra Kumar, Steno. Grade 'A & B' (merged) (PS) is posted in the Ministry of Textiles w.e.f. the afternoon of 30th September, 2009.

RAM LAKHAN, Under Secy.

#### DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 28th October 2009

No. 14/2009 (F. No. 6/2459/2008-HRD-I/4291)—The Central Administrative Tribunal (CAT), Principal Bench, New Delhi, vide its Order dated 07.10.2009, in OA No. 2806/2009, has stayed the operation of the DGFT Office Order No. 75/2009 dated 25.09.2009, vide which Shri Shailesh Singh, IPS (MP : 87) was repatriated to his parent cadre, i.e., Ministry of Home Affairs. In view of the said Order of CAT, repatriation of Shri Shailesh Singh, IPS (MP : 87) has been stayed and he is re-appointed as Joint Director General of Foreign Trade, Mumbai, under the Directorate General of Foreign Trade, till further orders.

SATYAN SHARDA  
Jt. Dir. Genl. of Foreign Trade

No. 15/2009 (F. No. 6/2502/2009-HRD-I/4394)—In pursuance of DGFT Office Order No. 93/2009 dated 28th October, 2009, Shri Mahendra Jain IAS (KN : 85), presently holding the substantive post of Development Commissioner, Navi Mumbai SEZ, will hold the additional charge of the post of Joint Director General of Foreign Trade, Mumbai, under the Directorate General of Foreign Trade, and further, in pursuance of DGFT Office Order No. 94/2009 dated 28th October, 2009, he is nominated as "Head of the Office of the Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Mumbai", under the Directorate General of Foreign Trade, with immediate effect, till further orders.

SATYAN SHARDA  
Jt. Dir. Genl. of Foreign Trade

#### MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the October 2009

No. A-32011/4/2005-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of the following Assistants borne on the Cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas, as Section Officer in this Ministry in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- for the period mentioned against each or till regular Section Officers become available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Period extended up to
1.	Smt. Amrita	31.12.2009
2.	Smt. Surinder Rani	31.12.2009
3.	Shri Surender Kumar	31.12.2009
4.	Smt. Promila Shukla	31.12.2009
5.	Shri H. B. Singh	31.12.2009
6.	Shri Tikam Singh	31.12.2009
7.	Shri Basant Kumar	31.12.2009

2. The appointment of the above officers to the post of Section Officer is purely ad-hoc in nature and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the post of Section Officer of CSS.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 22nd October 2009

No. A-19011/10/2009-HR-II—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 17/3/2009-EO (SM.I) dated 19.10.2009, the President is pleased to appoint Shri Subbaroyan Krishnan, IAS (UK : 75) as Secretary, Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 22.10.2009 (F/N) until further orders.

S. R. GHOSH, Under Secy.

## MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 13th October 2009

No. 3/11/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Bhupal Nanda, ICoAS (93) as Deputy Secretary in the Ministry of Mines, w.e.f. 23rd September, 2009 for the remaining period of his central deputation i.e. upto 20.12.2010, on his return from foreign assignment in Afghanistan, under the UNDP Project.

PRAMOD CHAND, Under Secy.

No. 3/9/2009-Estt.—Consequent upon inclusion of her name in the Grade-I (Under Secretary) of CSS for the year 2003 as per Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25.08.2009, the President is pleased to appoint Smt. Neeta Gupta, Under Secretary (ad hoc) in the Ministry of Mines as Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis with effect from 1st July, 2003.

PRAMOD CHAND, Under Secy.

No. 3/9/2009-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Grade-I (Under Secretary) of CSS for the year 2003 as per Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/16/2007-CS.I dated 25.08.2009, the President is pleased to appoint Shri C. K. Rawat, Under Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Mines as Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis with effect from 1st July, 2003.

PRAMOD CHAND, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC  
ENTERPRISES  
(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 22nd October 2009

No. A-19011/189/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri P. J. Michael, Under Secretary as regular Under Secretary under rule 12(2) of the Central Secretariat Service Rules, 1962 and the Central Secretariat Service (Promotion to grade I and Selection Grade) Regulations, 1964, w.e.f. 01.07.2003 and until further orders.

G. S. BASRAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC  
DISTRIBUTION  
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 16th October 2009

No. A-32014/1/2006-E.I.—The President is pleased to appoint the following regular Stenographer Grade 'C' of

Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the Department of Food & Public Distribution as Stenographer Grade 'A & B' (Merged) on regular basis w.e.f. 01.10.2009 (F/N) for the Select List Year, 2006 in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- .

Shri P. K. Khera

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 30th October 2009

No. A-38011/02/2009-Estt.—Shri U. S. Rawat, Sr. Principal Private Secretary in the Department of Biotechnology retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2009 on superannuation.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

## MINISTRY OF ENVIRONMENT &amp; FORESTS

New Delhi-110003, the 29th October 2009

No. Z-20018/5/2009-CPA(.)—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated the 27th October, 2006, the President is pleased to extend the tenure of Shri J. C. Kala as Member of the National Environment Appellate Authority for a period of six months with effect from 01.11.2009 to 30.04.2010 or till further orders, whichever is earlier. Other terms and conditions of the Notification dated 27th October, 2006 will remain the same.

R. K. SURI, Addl. Dir.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF AYUSH)

New Delhi, the 20th October 2009

No. A-12026/1/2001-ISM(E-I)—Dr. S. Rangavittal, Medical Officer (Homeo), Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare retired from Government Service with effect from the afternoon of 16th October, 2009, after taking VRS from the service.

SUMAN CHATTERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 26th August 2009

No. 12022/4/2009-E-I—In supersession of this Department's Notification dated 21.08.2009, the President is pleased to appoint Dr. B. Ashok, IAS(KL:98) as Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Agriculture (Prof. K. V. Thomas) w.e.f. the forenoon of 17.08.2009 at the level of Deputy Secretary in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay of Rs. 7,600/- for a period upto 02.07.2013 under the combined tenure of seven years or till he ceases to function

as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event takes place earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 7th October 2009

No. 32014/1/2009-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Steno Grade A&B (Merged) of CSSS for the year 2006 against Seniority Quota, the President is pleased to appoint the following regular Steno Grade 'C' of CSSS borne on the cadre of Department of Agriculture & Cooperation to the post of Steno Grade A&B (Merged)(PS) (PB-2 Rs. 9,300—34,800/-, Grade Pay of Rs. 4,800/-) on regular basis in the same Department with effect from the forenoon of 1st October 2009:—

Sl. No.	Name of the Officer
---------	---------------------

- |    |                        |
|----|------------------------|
| 1. | Smt. Chand Prabha      |
| 2. | Smt. Savitri Bakhitani |

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 12th October 2009

No. 23024/1/2009-E.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/1/2007-CS.I(D) dated 26th December 2008 and O.M. No. 4/9/2008-CS.I(D) dated 30th January 2009, the President is pleased to include the following Grade-I Officers (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS) in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the Select List year mentioned against each:—

Sl. No.	Name	SL Year
---------	------	---------

- |    |                   |      |
|----|-------------------|------|
| 1. | Shri Satish Kumar | 2003 |
| 2. | Shri H. C. Batra  | 2006 |
| 3. | Shri S. R. Goyal  | 2006 |

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 14th October 2009

No. 27-2237/96-E.I.—The President is pleased to permit Smt. Deepika A. Tarvadi, a regular Private Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation to retire voluntarily w.e.f. the forenoon of 15.10.2009 under Rule 48 A of CCS (Pension) Rules, 1972 after waiving the notice period of three months subject to the condition that she will not be allowed to apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the period of notice of three months i.e. 10.12.2009.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 19th October 2009

No. 27-2848/2009-E.I.—The President is pleased to appoint Ms. Smriti Sharan, IPoS(1993) as Director in the Ministry of

Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the Pay Band 4 (Rs. 37,400—67,000/-) carrying Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. the forenoon of 19th October, 2009, for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 27th October 2009

No. 12-1/07-M&T(Admn.)—The President is pleased to appoint Shri Chakradhar Vishwanathrao Chimote, as Test Engineer in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 5,400/- (Group-A Gazetted, Non-Ministerial) w.e.f. the forenoon of 22.9.2009 at Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Tractor Nagar, P.O. Budni (M.P.)-466445.

B. B. BHAGAT, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 21st October 2009

No. A-19011/9/2007-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri G. Subramani, Deputy Secretary (ad-hoc), D/o Animal Husbandry, Dairying and Fisheries as Deputy Secretary on regular basis consequent upon inclusion of his name in the Select List Year of 2003 of Selection Grade (Deputy Secretary) vide DOP&T O.M. No. 4/1/2007-CS.I (D) dated 26th December, 2008, in the pay scale of Rs. 15,600—39,100 + 7600 (GP) w.e.f. the forenoon of 04.05.2007 in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

P. L. MEENA, Under Secy.

New Delhi, the 27th October 2009

No. 2-17/2008-Fy. (Admn.)—The President is pleased to appoint Dr. K. Vijayakumaran, Senior Scientist, Mangalore Research Centre of CMFRI to the post of Director General, a General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial post, in the pay scale of Rs. 16,400—20,000/- (Pre-revised) in Fishery Survey of India, Mumbai, under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries on STC basis for a period of three years w.e.f. 09.10.2009 (F.N.)

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

The 30th October 2009

No. 3-49/2002-Fy.(Admn.)—The President is pleased to appoint Shri Mahadev Rama Kokane to the post of Senior Instructor (Fishing) (Group 'A' Gazetted) in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin in the scale of pay of Rs. 8,000-13,500/- (pre-revised) with effect from 8.6.2009 (forenoon).

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

No. 3-17/2006-Fy.(Admn.)—The President is pleased to appoint Shri C. Rethinadhas to the post of Deputy Director (Group 'A' Gazetted) on deputation basis for a period of 3 years in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200 (pre-revised) in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin with effect from 12.10.2009 (forenoon).

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

---

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION  
TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)  
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 30th October 2009

No. PF/83/NIC/2009/Adm-I—Shri Om Prakash Sachdeva, Scientist "F" (Emp. Code : 83), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2009 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Deputy Director (Adm-I)

---

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 23rd October 2009

No. E-11016/5/2008-Hindi—In pursuance of Rule 10(4) of the Official Language (use for official purposes of the union) Rule 1976, the Central Government hereby notifies the following office under Ministry of Tourism the staff where of have acquired the working knowledge of Hindi.

1. Ashok Travels and Tours, Kolkata
2. Kosi Restaurant, Kosi.

DEVESH CHATURVEDI, Addl. Dir. Gen.

No. E-11016/5/2008-Hindi—In pursuance of Rule 10(4) of the Official Language (use for official purposes of the union) Rule 1976, the Central Government hereby notifies the following office under Ministry of Tourism the staff where of have acquired the working knowledge of Hindi :—

India Tourism, Hyderabad  
(Ministry of Tourism, Govt. of India)  
IInd Floor, Netaji Bhawan,  
Liberty Road, Himayat Nagar,  
Hyderabad,  
Andhra Pradesh-500026

DEVESH CHATURVEDI, Addl. Dir. Gen.

---

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 23rd October 2009

No. A. 12025/01/07-RS (Pt.)—The President is pleased to appoint Shri Dinesh Kumar Singh (IRSME), Senior Administrative Grade Officer of the Indian Railways as Commissioner of Railway Safety in the pay scale of

Rs. 67,000—79,000 (pre-revised scale of pay Rs. 22,400-525-24,500) in the Commission of Railway Safety under the Ministry of Civil Aviation with effect from 23rd September, 2009 until further orders.

2. The officer will be on probation for a period of one year from the date of assumption of charge.

OMA NAND, Under Secy.

---

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 29th October 2009

No. E(GP)2007/3/8—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' officer of Traffic Department of Indian Railways, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Traffic Service (IRTS) with effect from 18.06.2009, on the Railway mentioned below :—

PANEL FOR 2008-09

Name of the Officer

South Eastern Railway

Shri K. N. Biswas (SC)

K. B. L. MITTAL, Secy., Railway Board

No. E(O)III-2009/RN/13—Consequent upon his permanent absorption in CONCOR, Shri P K Agarwal, SA Grade/IRTS, has resigned from Railway Service with effect from 29.09.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy., Railway Board

No. E(O)III-2009/RN/14—Consequent upon his permanent absorption in CONCOR, Shri Sushil Kumar, SA Grade/IRTS, has resigned from Railway Service with effect from 29.09.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy., Railway Board

No. E(O)III-2009/RN/15—Consequent upon his permanent absorption in CONCOR, Shri Shahnawaz Ali, SA Grade/IRTS, has resigned from Railway Service with effect from 29.09.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy., Railway Board

---

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 28th October 2009

No. 18/2009 (F. No. A-32013/5/2008-Adm.I)—The President is pleased to appoint the following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, to the Junior Administrative Grade of the Central Power Engineering (Group A) Service (Director/Superintending Engineer) in the pre-revised scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in

the Central Electricity Authority, in an officiating capacity, with effect from the dates mentioned against their names, until further orders :—

S.No.	Name of the Officer	Date of appointment
	S/Shri	
1.	Ghanshyam Prasad	1st September, 2009
2.	Praveen Gupta	1st September, 2009
3.	Hemant Jain	1st September, 2009
4.	G. C. Joshi	1st September, 2009
5.	Narender Singh	1st September, 2009
6.	M. S. Satija	3rd September, 2009

N. SRIRAMAN, Under Secy.

New Delhi, the 12th October 2009

No. 30/2009 (F. No. 2/1/2009-Adm.II)—In pursuance of the provisions contained in the Department of Personnel & Training's Office Order No. 4/1/2009-CS.I(D) dated the 05th October, 2009 Shri D. B. Singh, CSS, Under Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperation is appointed to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) with effect

from the forenoon of the 12th October, 2009 in the Pay Band of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 7,600/- against the Select List year 2007.

2. Shri Singh shall be entitled for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) with effect from the 1st July of the Select List year (2007), on notional basis, with actual benefit of pay fixation being admissible from the date of as Deputy Secretary, i.e. 12th October, 2009.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

#### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 16th October 2009

No. A-12026/2/2008-S.S.-I—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 7D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Srikanta Nayak, Additional District & Sessions Judge-cum-Special Judge, CBI, Bhubaneswar, as Presiding Officer of the Employees' Provident Funds Appellate Tribunal, New Delhi in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500 (pre-revised 6th CPC) for a period of 5 years from the date of taking over charge of the post or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

A. K. GUPTA, Under Secy.

